

मक डिस्पोजल प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, 220 के0 वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु ग्राम- देवरी, आरंगपानी, फाटपखना, नवाटोला, बधमन्धवा, सुपाचुआँ, मनवसा, एवं कटौधी में 16.8912 हे0 वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि में उक्त निर्माण कार्य के दौरान जो भी खुदान किया जायेगा उसे पुनः उसी स्थल पर भर दिया जायेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA Case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include:-

- | | |
|--|------|
| 1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied | N.A. |
| 2. Quantity of muck to utilized in the project activities | N.A. |
| 3. Balance quantity of muck which requires disposal /management plan? | N.A. |
| 4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site | N.A. |
| 5. Ownership of the land and the consent of land owner in case disposal on non forest land | N.A. |
| 6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) | N.A. |
| 7. Development of dumping site construcyion of retaining walls and other tructures as per requirement of the site. The objective is to stop rolling down of the muck | N.A. |
| 8. Rehabilitation of dumping site live keveling planting of grass, shrubs & trees species | N.A. |

After construction work of the Octagonal building & residential complex will be done
Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width & height of structures to be exact must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that:

1. Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan; they will be liable to penaltu/action at their cost.
2. The proposed dumping site is located away from the river/stream/nala.


PANKAJ KUMAR

JE, ETSD-II PIPRI


क्षेत्रीय वन अधिकारी
म्योरपुर रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र

AU
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
220 के0 वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र

Executive Engineer
Electy. Transmission Division
U.P. Power Corporation Ltd.
Robertsganj

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

Name of project: Construction of 132 KV Transmission Line in Myourpur Range Renukoot Forest Division, Renukoot Sonbhadra U.P.

MUCK DISPOSAL PLANNING


Sl. NO.	Details	Quantity	Unit
	Material received from Hill side	NIL	Cum.
	Material received from Hill side cutting including 40% of swell factor		Cum.
	Disposal & use material		Cum.
1.	R.R. Stone Masonary laid 1:5		Cum.
2.	R.R Stone Material laid dry		Cum.
3.	Hand Packed stone filling		Cum.
4.	Construction of wire create		Cum.
5.	Construction of road side parapet		Cum.
6.	Granular of sub base/base/surface		Cum.
7.	Construction of scrapper		Cum.
8.	Construction of road side drain		Cum.
9.	Super elevation of patri filling		Cum.
10.	Concrete work		Cum.
11.	Total		Cum.
12.	Material disposal by Cartage		Cum.


Summary of Debries Disposal

Sl. No.	Total Material	Material Disposal	Reused Material for Building construction	Total Disposal in Dumping zone.
.....NIL.....				



PANKAJ KUMAR

JE, ETSD-II PIPRI


क्षेत्रीय वन अधिकारी
म्योरपुर रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र


अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
220 के0 वी0 उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र

Executive Engineer
Electy. Transmission Division
U.P. Power Corporation Ltd.,
Robertsganj


(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वन अधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

Name of project: Construction of 132 KV Transmission Line in Myourpur Range Renukoot Forest Division, Renukoot Sonbhadra U.P.

DETAILS OF MUCK DISPOSAL SITES

Sl. No	Location of Dumping Yard	Owner of Land	Khasra Number	Area (Hect.)	Height of Dumping Zone	Capacity of Dumping Zone	Longitude/ Latitude
.....NIL.....							

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
220 के० वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र



PANKAJ KUMAR

JE, ETSD-II PIPRI

क्षेत्रीय वन अधिकारी
म्योरपुर रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र

Executive Engineer
Electy. Transmission Division
U.P. Power Corporation Ltd.
Robertsganj

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

Name of project: Construction of 132 KV Transmission Line in Myourpur Range Renukoot Forest Division, Renukoot Sonbhadra U.P.

CERTIFICATE OF MUCK DISPOSAL

This is to certify that there are no materials in the above proposal for muck disposal.

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
220 के० वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र

Executive Engineer
Electy. Transmission Division
Etc. U.P. Transmission Corporation Ltd.
U.P. Power Corporation Ltd.
Robertsganj

६/१०/११

क्षेत्रीय वन अधिकारी
म्योरपुर रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट
सोनभद्र



PANKAJ KUMAR

JE, ETSD-II PIPRI

↓
(मनमोहन मिश्र)
प्रजागीष वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र